

महाराणा प्रताप पी.जी. कालेज, जंगल धूसड़, गोरखपुर

कक्षा : बी.काम. भाग-तीन				विषय : ग्रुप 'ए'	
दिनांक	व्याख्यान	प्राध्यापक का नाम	प्रश्नपत्र	अध्याय	शीर्षक
16.07.2013	1	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	अंशों का निर्गमन	कम्पनी का आशय, लक्षण एवं कम्पनी के प्रकार
16.07.2013	1	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	विषय एवं पाठ्यक्रम परिचय	पाठ्यक्रम पर चर्चा
17.07.2013	2	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	अंशों का निर्गमन	अंश पूँजी के अर्थ, प्रकार
17.07.2013	2	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	कम्पनी अंकेक्षण की नियुक्ति	संचालकों, अंशधारियों, केन्द्रिय सरकार द्वारा
18.07.2013	1	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	विषय परिचय	प्रबन्धकीय लेखा विधि के अर्थ एवं परिभाषा
19.07.2013	2	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	प्रबन्धकीय लेखाविधि	प्रकृति या लक्षण एवं क्षेत्र
20.07.2013				कक्षाध्यापन	
22.07.2013	3	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	अंशों का निर्गमन	अंश का अर्थ, प्रकृति तथा प्रकार
22.07.2013	3	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	कम्पनी अंकेक्षण की नियुक्ति	विशेष प्रस्ताव द्वारा, चाटर्ड एकाउण्टेण्ट्स एक्ट द्वारा
23.07.2013	4	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	अंशों की निर्गमन	अंश आवेदन एवं आवंटन के लेखे
23.07.2013	4	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	अंकेक्षण की सेवा समाप्ति	अंकेक्षण का हटाया जाना
24.07.2013	5	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	अंशों का निर्गमन	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
24.07.2013	5	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	अंकेक्षण का परिश्रमिक	कम्पनी अंकेक्षण की स्थिति
25.07.2013	3	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	प्रबन्धकीय लेखाविधि	महत्व, प्रबन्ध के यंत्र के रूप में प्रबन्धकीय लेखा विधि
26.07.2013	4	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	प्रबन्धकीय लेखाविधि	वित्तीय लेखाविधि एवं प्रबन्धकीय लेखाविधि में अन्तर
27.07.2013				कक्षाध्यापन	
29.07.2013	6	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	अंशों का निर्गमन	आवश्यकता से अधिक आवेदन पत्र आना
29.07.2013	6	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	अंकेक्षण की योग्यताएं	योग्यताएं एवं अयोग्यताएं
30.07.2013	7	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	अंशों का निर्गमन	अग्रिम याचना
30.07.2013	7	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	कम्पनी अंकेक्षण के अधिकार	हिसाब-किताब के पुस्तकें देखने तथा बहियों को रोकने का अधिकार
31.07.2013	8	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	अंशों का निर्गमन	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
31.07.2013	8	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	कम्पनी अंकेक्षण के कर्तव्य	अधिनियम, उच्च, आचरण, न्यायालय के अनुसार
01.08.2013	5	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	वित्तीय विवरण	अर्थ, परिभाषा, प्रकार उद्देश्य
03.08.2013				कक्षाध्यापन	
05.08.2013	9	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	अंशों का निर्गमन	अवशिष्ट याचना
05.08.2013	9	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	कम्पनी अंकेक्षण के कर्तव्य	काले धन को रोकने में सहायक
06.08.2013	10	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	अंशों का निर्गमन	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
06.08.2013	10	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	अंकेक्षण के दायित्व	दीवानी दायित्व
07.08.2013	11	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	अंशों का निर्गमन	अंशों का हरण एवं लेखें

महाराणा प्रताप पी.जी. कालेज, जंगल धूसड़, गोरखपुर

कक्षा : बी.काम. भाग-तीन					विषय : ग्रुप 'ए'
दिनांक	व्याख्यान	प्राध्यापक का नाम	प्रश्नपत्र	अध्याय	शीर्षक
07.07.2013	11	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	अंकेक्षण के दायित्व	लापरवाही, सापराध दायित्व
08.08.2012	06	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	वित्तीय विवरण	प्रकृति महत्व एवं सीमाएं
10.08.2013				कक्षाध्यापन	
12.08.2013	12	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	अंशों का निर्गमन	हरण अंशों का विभिन्न प्रकार से पुनः निर्गमन करना
12.08.2013	12	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	अंकेक्षण के दायित्व	अन्य दायित्व
13.08.2013	13	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	अंशों का निर्गमन	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
13.08.2013	13	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	कम्पनी का अंकेक्षण	आशय, अंकेक्षण पूर्व योजना
14.08.2013	14	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	अंशों का निर्गमन	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
14.08.2013	14	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	कम्पनी का अंकेक्षण	पार्षद सीमानियम एवं अन्तर्नियम
16.08.2013	7	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	वित्तीय विवरण	संघटक एवं लाभ-हानि खाता एवं स्थिति विवरणों के मदों का स्पष्टीकरण
17.08.2013				कक्षाध्यापन	
19.08.2013	15	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	पूर्वाधिकार अंशों का शोधन	अर्थ एवं विभिन्न प्रकार के लेखें
19.08.2013	15	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	कम्पनी का अंकेक्षण	प्रविवरण एवं वैधानिक पुस्तकें
20.08.2013	16	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	पूर्वाधिकार अंशों का शोधन	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
20.08.2013	16	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	कम्पनी का अंकेक्षण	महत्वपूर्ण प्रलेख, अंश पूँजी
22.08.2013	8	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	वित्तीय विवरणों का विश्लेषण	वित्तीय विवरणों के विश्लेषण एवं निर्वचन से आशय
23.08.2013	9	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	वित्तीय विवरणों का विश्लेषण	रीतियां या उपकरण
24.08.2013				कक्षाध्यापन	
26.08.2013	17	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	ऋणपत्रों का निर्गमन व शोधन	अर्थ, परिभाषा, प्रकार एवं उसके लेखें
26.08.2013	17	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	कम्पनी का अंकेक्षण	नकद रोकड़ के लिए निर्गमित अंश
27.08.2013	18	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	ऋणपत्रों का निर्गमन व शोधन	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
27.08.2013	18	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	कम्पनी का अंकेक्षण	अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमित अंश
29.08.2013	10	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	अनुपात विश्लेषण	अनुपात विश्लेषण का अर्थ एवं परिभाषा
30.08.2013	11	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	अनुपात विश्लेषण	महत्व एवं सीमायें
31.08.2013				मूल्यांकन	
02.09.2013	19	डॉ. राजेश शुक्ल	द्वितीय	ऋणपत्रों का निर्गमन व शोधन	याचना
02.09.2013	19	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	कम्पनी का अंकेक्षण	अधिमूल्य, बट्टा, अग्रिम भुगतान बकाया याचना
03.09.2013	20	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	ऋणपत्रों का निर्गमन व शोधन	ऋणपत्रों का सहायक प्रतिभूति के रूप में अर्थ, प्रक्रिया एवं लेखे

महाराणा प्रताप पी.जी. कालेज, जंगल धूसड़, गोरखपुर

कक्षा : बी.काम. भाग-तीन					विषय : ग्रुप 'ए'
दिनांक	व्याख्यान	प्राध्यापक का नाम	प्रश्नपत्र	अध्याय	शीर्षक
03.09.2013	20	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	कम्पनी का अंकेक्षण	अंशों का हरण एवं पुर्ननिर्गमन
04.09.2013	21	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	ऋणपत्रों का निर्गमन व शोधन	ऋणपत्रों पर ब्याज और इस पर आयकर प्रक्रिया व लेखें
04.09.2013	21	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	कम्पनी का अंकेक्षण	अंश पूँजी में कमी, अंश प्रमाण पत्र अंशों का हस्तान्तरण
05.09.2013	12	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	अनुपात विश्लेषण	अनुपातों का वर्गीकरण
06.09.2013	13	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	लाभदायकता अनुपात	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
07.09.2013				कक्षाध्यापन	
09.09.2013	22	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	ऋणपत्रों का निर्गमन व शोधन	ऋण पत्रों के भुगतान की विधियाँ परिवर्तन द्वारा शोधन
09.09.2013	22	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	कम्पनी का अंकेक्षण	अंश अधिपत्र, बोनस अंश, ऋण पत्र
10.09.2013	23	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	ऋण पत्रों का निर्गमन व शोधन	सिकिंग फण्ड, अर्थ, प्रकार
10.09.2013	23	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	कम्पनी का अंकेक्षण	अभिगोपन कमीशन, प्रारम्भिक व्यय, समामेलन से पूर्व लाभ
11.09.2013	24	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	ऋणपत्रों का निर्गमन व शोधन	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
11.09.2013	24	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	कम्पनी का अंकेक्षण	संचालक, प्रबन्ध संचालक
12.09.2013	14	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	लाभदायकता का अनुपात	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
13.09.2013	15	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	लाभदायकता का अनुपात	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
14.09.2013				कक्षाध्यापन	
16.09.2013	25	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	ऋणपत्रों का निर्गमन व शोधन	असंचयी सिकिंग फण्ड
16.09.2013	25	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	कम्पनी का अंकेक्षण	प्रबन्धकीय पारिश्रमिक
17.09.2013	26	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	लाभों का निपटारा एवं बोनस अंश	विभाजन योग्य लाभ तथा बोनस अंश
17.09.2013	26	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	दृष्ट्य लाभ	लाभ का आशय, लाभ का निर्धारण, गलत निर्धारण का प्रभाव
20.09.2013	16	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	लाभदायकता का अनुपात	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
21.09.2013				कक्षाध्यापन	
23.09.2013	27	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	लाभों का निपटारा एवं बोनस	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
23.09.2013	27	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	विभाज्य लाभ	विभाज्य लाभ का निर्धारण
24.09.2013	28	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	लाभों का निपटारा एवं बोनस	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
24.09.2013	28	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	विभाज्य लाभ	लाभांश के श्रोत, पूँजीगत लाभ एवं हानियाँ
25.09.2013	28	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	ख्याति का मूल्यांकन	अर्थ, परिभाषा, मूल्यांकन एवं ख्याति को प्रभावित करने वाले तथ्य
25.09.2013	28	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	लाभांश	लाभांश का निर्धारण
26.09.2013	17	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	लाभदायकता का अनुपात	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
27.09.2013	18	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	तरलता अनुपात	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण

महाराणा प्रताप पी.जी. कालेज, जंगल धूसड़, गोरखपुर

कक्षा : बी.काम. भाग-तीन					विषय : ग्रुप 'ए'
दिनांक	व्याख्यान	प्राध्यापक का नाम	प्रश्नपत्र	अध्याय	शीर्षक
28.09.2013				मूल्यांकन	
30.09.2013	30	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	ख्याति का मूल्यांकन	विधियाँ एवं लेखें
30.09.2013	30	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	लाभांश	लाभांश के वितरण सम्बन्धी नियम
01.10.2013	31	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	ख्याति का मूल्यांकन	औसत लाभ विधि
01.10.2013	31	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	लाभांश	लाभांश एवं अंकेक्षण, अधिलाभांश
03.10.2013	19	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	शोधन क्षमता अनुपात	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
07.10.2013	32	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	ख्याति का मूल्यांकन	अधिलाभ विधि
07.12.2013	32	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	संचय	संचय कि विशेषताएं
08.10.2013	33	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	ख्याति का मूल्यांकन	पूँजीकरण विधि
08.10.2013	33	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	संचय	सामान्य एवं विशेष संचय
09.10.2013	34	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	ख्याति का मूल्यांकन	पूँजीकरण विधि
09.10.2013	34	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	संचय	पूँजी संचय, संचय कोष
10.10.2013	20	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	शोधन क्षमता अनुपात	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
11.10.2013	21	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	बिक्री अनुपात	स्कन्ध आवर्त अनुपात एवं देनदार का प्राप्य आवर्त अनुपात
17.10.2013	22	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	बिक्री अनुपात	लेनदार या देय आवर्त अनुपात
19.10.2013				कक्षाध्यापन	
21.10.2013	35	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	ख्याति का मूल्यांकन	वार्षिकी विधि
21.10.2013	35	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	संचय	शोधन कोष
22.10.2013	36	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	अंशों के मूल्यांकन	अंशों के मूल्यांकन का आशय एवं आवश्यकता
22.10.2013	36	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	संचय	गुप्त संचय के उद्देश्य
23.10.2013	37	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	अंशों के मूल्यांकन	अंशों के मूल्यांकन की विधियाँ
23.10.2013	37	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	अंकेक्षक का प्रतिवेदन	अर्थ, विषय सामग्री
24.10.2013	23	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	बिक्री अनुपात	कुल सम्पत्ति आवर्त अनुपात
25.10.2013	24	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	बिक्री अनुपात	कुल सम्पत्ति आवर्त अनुपात
26.10.2013				मूल्यांकन	
28.10.2013	38	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	अंशों के मूल्यांकन	सम्पत्ति मूल्यांकन विधि
28.10.2013	38	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	अंकेक्षक का प्रतिवेदन	सही एवं उचित
29.10.2013	39	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	अंशों के मूल्यांकन	सम्पत्ति मूल्यांकन विधि
29.10.2013	39	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	अंकेक्षक का प्रतिवेदन	प्रकार, स्वच्छ एवं मर्यादित
30.10.2013	40	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	अंशों का मूल्यांकन	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण

महाराणा प्रताप पी.जी. कालेज, जंगल धूसड़, गोरखपुर

कक्षा : बी.काम. भाग-तीन					विषय : ग्रुप 'ए'
दिनांक	व्याख्यान	प्राध्यापक का नाम	प्रश्नपत्र	अध्याय	शीर्षक
30.10.2013	40	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	अंकेक्षक का प्रतिवेदन	महत्व, नमूना
06.11.2013	41	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	अंशो का मूल्यांकन	आय मूल्यांकन विधि
06.11.2013	41	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	अंकेक्षण प्रमाण पत्र	प्रतिवेदन एवं प्रमाण पत्र में अन्तर
07.11.2013	25	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	कोष प्रवाह विवरण	कोष प्रवाह विवरण से आशय एवं व्याख्या
08.11.2013	26	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	कोष प्रवाह विवरण	चालू एवं गैर-चालू सम्पत्तियों एवं दायित्व
09.11.2013	27	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	कोष प्रवाह विवरण	उद्देश्य, लक्षण एवं महत्व
11.11.2013				कक्षाध्यापन	
11.11.2013				कक्षाध्यापन	
12.11.2013	42	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	सूत्रधारी कम्पनी	अर्थ, निर्माण की प्रक्रिया, लाभ-हानि
12.11.2013	42	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	अनुसन्धान	अर्थ, आवश्यक तत्व
15.11.2013	28	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	कोष प्रवाह विवरण	कोष प्रवाह विवरण के मदों का स्पष्टीकरण
16.11.2013	29	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	कोष प्रवाह विवरण	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
18.11.2013				कक्षाध्यापन	
18.11.2013				कक्षाध्यापन	
19.11.2013	43	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	सूत्रधारी कम्पनी	विभिन्न प्रकार के लेखें एवं तकनीकी
19.11.2013	43	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	अनुसंधान	उद्देश्य
20.11.2013	44	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	सूत्रधारी कम्पनी	पूँजी संचय एवं ख्याति की गणना
20.11.2013	44	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	अनुसंधान	अनुसंधानकर्ता के कर्तव्य, अनुसंधान के पग
21.11.2013	30	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	कोष प्रवाह विवरण	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
22.11.2013	31	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	कोष प्रवाह विवरण	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
23.11.2013	32	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	कोष प्रवाह विवरण	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
25.11.2013				मूल्यांकन	
25.11.2013				मूल्यांकन	
26.11.2013	45	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	सूत्रधारी कम्पनी	अल्पपक्ष की गणना
26.11.2013	45	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	अनुसंधान	अनुसंधान तथा अंकेक्षण में अन्तर
27.11.2013	46	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	सूत्रधारी कम्पनी	मिश्रित अन्तिम खाते का विवरण बनाना
27.11.2013	46	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	विशिष्ट अंकेक्षण	बैंकिंग कम्पनी के खातों का अंकेक्षण
28.11.2013	33	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	कोष प्रवाह विवरण	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
29.11.2013	34	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	रोकड़ प्रवाह विवरण	आशय, उद्देश्य एवं महत्व
30.11.2013	35	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	रोकड़ प्रवाह विवरण	सीमाएं एवं रोकड़ प्रवाह विवरण तथा कोष प्रवाह विवरण

महाराणा प्रताप पी.जी. कालेज, जंगल धूसड़, गोरखपुर

कक्षा : बी.काम. भाग-तीन					विषय : ग्रुप 'ए'
दिनांक	व्याख्यान	प्राध्यापक का नाम	प्रश्नपत्र	अध्याय	शीर्षक
					में अन्तर
02.12.2013				कक्षाध्यापन	
02.11.2013				कक्षाध्यापन	
03.12.2013	47	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	सूत्रधारी कम्पनी	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
03.11.2013	47	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	विशिष्ट अंकेक्षण	बैंकिंग कम्पनी के खातों का अंकेक्षण
06.12.2013	36	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	रोकड़ प्रवाह विवरण	प्रारूप एवं लेखांकन मानक-3
07.12.2013	37	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	रोकड़ प्रवाह विवरण	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
09.12.2013				कक्षाध्यापन	
09.11.2013				कक्षाध्यापन	
11.12.2013	48	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	कम्पनी समापन	अर्थ एवं समापन की प्रक्रिया एवं प्रकार
11.12.2013	48	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	विशिष्ट अंकेक्षण	बीमा कम्पनियों के खातों का अंकेक्षण
12.12.2013	38	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	रोकड़ प्रवाह विवरण	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
13.12.2013	39	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	रोकड़ प्रवाह विवरण	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
14.12.2013	40	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	रोकड़ प्रवाह विवरण	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
16.12.2013				कक्षाध्यापन	
16.12.2013				कक्षाध्यापन	
17.12.2013	49	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	कम्पनी समापन	निस्तारक के खाते का विवरण
17.12.2013	49	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	विशिष्ट अंकेक्षण	बीमा कम्पनियों के खातों का अंकेक्षण
18.12.2013	50	डॉ. राजेश शुक्ला	प्रथम	कम्पनी समापन	पूर्वाधिकार लेनदार एवं स्थिति विवरण
18.12.2013	50	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	विशिष्ट अंकेक्षण	सहकारी समितियों का अंकेक्षण
19.12.2013	41	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	समविच्छेद विश्लेषण	आशय, महत्व, उद्देश्य
20.12.2013	42	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	समविच्छेद विश्लेषण	समविच्छेद बिन्दु एवं उसका प्रयोग
21.12.2013	43	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	समविच्छेद विश्लेषण	अंशदान, लाभ मात्रा अनुपात
23.12.2013				कक्षाध्यापन	
23.12.2013				कक्षाध्यापन	
24.12.2013	51	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	कम्पनियों के एकीकरण	अर्थ, परिभाषा, प्रकृति एवं प्रकार
24.12.2013	51	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	विशिष्ट अंकेक्षण	सरकारी कम्पनियों का अंकेक्षण
26.12.2013	44	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	समविच्छेद विश्लेषण	सुरक्षा सीमा
27.12.2013	45	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	समविच्छेद विश्लेषण	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
28.12.2013	46	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	समविच्छेद विश्लेषण	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण

महाराणा प्रताप पी.जी. कालेज, जंगल धूसड़, गोरखपुर

कक्षा : बी.काम. भाग-तीन				विषय : ग्रुप 'ए'	
दिनांक	व्याख्यान	प्राध्यापक का नाम	प्रश्नपत्र	अध्याय	शीर्षक
30.12.2013	52			मूल्यांकन	
31.12.2013	52	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	कम्पनियों के एकीकरण प्रबन्ध अंकेक्षण	क्रय, प्रतिफल का निर्धारण
31.12.2013	52	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	प्रबन्ध अंकेक्षण	अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता, गुण, कार्य प्रणाली
01.01.2014	53	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	कम्पनियों के एकीकरण	लेखांकन की विधियाँ
01.01.2014	53	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	प्रबन्ध अंकेक्षण	प्रबन्ध अंकेक्षण के कार्य, लाभ-दोष
02.01.2014	47	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	समविच्छेद विश्लेषण	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
04.01.2014	48	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	बजट एवं बजटन	बजटन का आशय एवं प्रकार
06.01.2014				कक्षाध्यापन	
06.01.2014				कक्षाध्यापन	
07.01.2014	54	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	कम्पनियों के एकीकरण	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
07.01.2014	54	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	लागत अंकेक्षण	उद्देश्य, योजना विन्तीय एवं लागत अंकेक्षण
08.01.2014	55	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	कम्पनियों के एकीकरण	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
08.01.2014	55	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	लागत अंकेक्षण	लाभ एवं हानियाँ तथा प्रतिवेदन
09.01.2014	49	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	बजट एवं बजटन	बजटन की सीमाएं एवं उद्देश्य
10.01.2014	50	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	स्थिर एवं लोचदार बजट	स्थिर एवं लोचदार बजट के आशय अन्तर बताते समय ध्यान देने योग्य बातें
11.01.2014	51	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	प्रमाप लागत विधि	अर्थ, परिभाषा प्रकृति एवं उद्देश्य
13.01.2014				कक्षाध्यापन	
13.01.2014				कक्षाध्यापन	
15.01.2014	56	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	कम्पनियों के एकीकरण	एकीकरण के विभिन्न लेखें
15.01.2014	56	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	लागत अंकेक्षण	लाभ एवं हानियाँ तथा प्रतिवेदन
16.01.2014	52	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	प्रमाप लागत विधि	प्रमाप लागत विधि का प्रयोग
17.01.2014	53	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	प्रमाप लागत विधि	प्रकार एवं विधियाँ
18.01.2014	54	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	प्रमाप लागत विधि	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
20.01.2014				कक्षाध्यापन	
20.01.2014				कक्षाध्यापन	
21.01.2014	57	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	कम्पनियों के एकीकरण	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
21.01.2014	57	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	लागत अंकेक्षण	लागत एवं प्रबन्ध अंकेक्षण में अन्तर
22.01.2014	58	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	आन्तरिक पुनःनिर्माण	अर्थ एवं उनके लेखें
22.01.2014	58	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	लागत अंकेक्षण	लागत एवं प्रबन्ध अंकेक्षण में अन्तर

महाराणा प्रताप पी.जी. कालेज, जंगल धूसड़, गोरखपुर

कक्षा : बी.काम. भाग-तीन					विषय : ग्रुप 'ए'
दिनांक	व्याख्यान	प्राध्यापक का नाम	प्रश्नपत्र	अध्याय	शीर्षक
23.01.2014	55	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	प्रमाण लागत विधि	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
24.01.2014	56	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	विचरण विश्लेषण	आशय, वर्गीकरण महत्व एवं विचरणों की गणना
27.01.2014				मूल्यांकन	
27.01.2014				मूल्यांकन	
28.01.2014	50	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	आन्तरिक पुनः निर्माण	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
28.01.2014	50	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	अंकेक्षण की भावी प्रवृत्तियां	मूल्य स्तर समायोजन विवरण अंकेक्षण
29.01.2014	60	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	आन्तरिक पुनःनिर्माण	पुनर्गठन का अर्थ, उद्देश्य
29.01.2014	60	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	अंकेक्षण की भावी प्रवृत्तियों	मूल्य स्तर समायोजित विवरण अंकेक्षण
30.01.2014	59	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	बजट	प्रकृति, प्रकार एवं बजट की तैयारी
31.01.2014	58	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	बजट नियन्त्रण	आशय, उद्देश्य प्रकृति एवं महत्व
01.02.2014	59	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	शून्य आधारित बजटन	शून्य आधारित बजट के अर्थ एवं उसका प्रयोग
03.02.2014				कक्षाध्यापन	
03.02.2014				कक्षाध्यापन	
04.02.2014	61	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	बाह्य पुनः निर्माण	अर्थ, उद्देश्य
04.02.2014	61	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	अंकेक्षण की भावी प्रवृत्तियां	अंकेक्षण समितियां
05.02.2014	62	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	बाह्य पुनः निर्माण	आन्तरिक पुनर्निर्माण एवं बाह्य पुनर्निर्माण में अन्तर
05.02.2014	62	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	अंकेक्षण की भावी प्रवृत्तियां	सामाजिक अंकेक्षण
06.02.2014	60	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	सीमांत लागत विधि	सीमांत लागत विधि का उपयोग
07.02.2014	61	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	सीमांत लागत विधि	बनाओं या खरीदों में सीमांत लागत की भूमिका—सीमांत लागत एवं अवशोषण
08.02.2014	62	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	—	लागत में अन्तर
10.02.2014				मूल्यांकन	
10.02.2014				मूल्यांकन	
11.02.2014	63	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	बाह्य पुनःनिर्माण	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
11.02.2014	63	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	अंकेक्षण की भावी प्रवृत्तियां	सामाजिक अंकेक्षण
12.02.2014	64	डॉ. राजेश शुक्ल	प्रथम	—	—
12.02.2014	64	श्री नन्दन शर्मा	तृतीय	—	—
13.02.2014	63	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	—	—
14.02.2014	64	श्री सुभाष गुप्ता	द्वितीय	—	—